

नमस्कार DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट,

इस सप्ताह, हमने 2020-2021 वित्त वर्ष के लिए बजट पर चर्चा करने के लिए वर्चुअल बोर्ड बैठक का आयोजन किया। बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पर साथ मिलकर काम करते हुए कुछ कड़े निर्णय लें जो कि हमारे बच्चों और हमारे स्टाफ, साथ में उनके परिवारों की रक्षा करेंगे। मैंने आपकी बातों को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। आपकी कॉल, ईमेल, और व्यक्तिगत बातचीत पर पूरा ध्यान दिया गया है। इस डिस्ट्रिक्ट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मैं सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रही हूँ।

इसके अतिरिक्त, सोमवार की बोर्ड बैठक के बाद, मैंने हमारे विभाग प्रमुखों को वित्त वर्ष 21 के बजट में कैलेंडर में अवकाश के दिनों की पहचान करने की ज़िम्मेदारी सौंपी है ताकि लागतों को अतिरिक्त रूप से कम किया जा सके हम जानते हैं कि थोड़ा सा समायोजन कर हम अपने शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं, और हम समझते हैं कि हमारे विद्यार्थियों की सफलता में सभी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसी योजना तैयार करना है जो हमारे विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना थके कार्य करने वाले हमारे शिक्षकों के ऊपर कम से कम नकारात्मक प्रभाव डालती हो।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि महत्वपूर्ण समीक्षा करने के बाद, हमने एक संशोधित बजट योजना प्रस्तुत की है जिसमें उन मूल्यों और प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है। उस बजट को मंजूरी प्राप्त हुई और डिस्ट्रिक्ट कर्मचारियों के लिए कैलेंडर में अवकाश के पाँच दिन शामिल किए गए। हालांकि, डिस्ट्रिक्ट शिक्षकों, लीडरों और सहायता कर्मियों के लिए चार दिन का भुगतान पेशेवर विकास संस्थान भी पेश करेगा। परिणामस्वरूप, इन कर्मचारियों को अगले वर्ष एक दिन कम कार्य पर आना पड़ेगा। मैं बहुत आभारी हूँ कि हमारी टीम मेहनत से समाधान निकाला जो बताता है कि हम अपने शिक्षकों और स्कूलों को कितना महत्व देते हैं।

साथ मिलकर कार्य करने से मुझे याद आया कि इस सप्ताह हमने प्रतिनिधि John Lewis को खो दिया है, जो एक सेवक, एक कार्यकर्ता, और एक महान लीडर थे, जिन्होंने हमेशा ही कहा कि साथ मिलकर हम उत्तम कार्य कर सकते हैं। मेरी टीम ने इस सप्ताह चुनौती को स्वीकार किया, और जैसा कि प्रतिनिधि John Lewis ने कहा, “मेरा मानना है कि यदि आप किसी चीज़ को पूरा करना चाहते हैं, तो उसे छोड़ें नहीं, और हार नहीं मानें।” बहुत सम्मान की बात है कि DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट में देश का पहला स्कूल है जिसे प्रतिनिधि John Lewis का नाम दिया गया, John R. Lewis एलिमेंटरी स्कूल।

मुझसे एक बड़ी चूक हो जाएगी यदि मैं हमारे समय की एक और महान लीडर रेवरेंड C.T. Vivian. के निधन की जानकारी ना दूँ। यह समय है पीछे मुड़ कर देखने और समझने का कि अनिश्चितता के समय में कितना कुछ किया जा सकता है। मुझे पता है आगामी समय हमारी टीम के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है।

अंत में, मैं हमारे सहायक प्रिंसिपलों और प्रमुख काउंसलरों का फिर से स्वागत करना चाहती हूँ, जिन्होंने 20 जुलाई को वर्चुअल रूप से अपना काम शुरू कर दिया। आशा करती हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को वर्चुअल रूप से शिक्षा देने और उनकी देखभाल के दौरान आप सभी बढ़िया काम करेंगे। आपका सप्ताहांत बढ़िया रहे!

आपकी #1 चीयरलीडर,

Cheryl Watson-Harris, अधीक्षक